

ओम शान्ति

दिनांक: 17/10/2017

मुंबई गामदेवी में आदरणीय दादी जानकीजी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया दीपावली का त्योहार

प्राण प्यारे अव्यक्तमूर्त बापदादा के अति स्नेही सभी ब्राह्मण परिवार को मुंबई गामदेवी से ईश्वरीय स्नेह सम्पन्न मधुर याद स्वीकार हो । सभी को दीपावली के पावन पर्व कि पदम् गुणा मुबारक हो ।

मुंबई गामदेवी में दीपावली पर्व पर भारतीय विद्याभवन ओडिटोरियम में आदरणीय दादी जानकीजी के सानिध्य में 17 अक्टूबर को गामदेवी सबज़ोन कि तरफ से दीपावली कार्यक्रम के साथ - साथ गामदेवी की 54वीं जन्मदिन की सालगिरह भी मनाई गई, जिसमे गामदेवी सबज़ोन के सभी ब्राह्मण भाई - बहने उपस्थित थे ।

मंचासीन आदरणीय दादी जानकीजी, बी.के. हंसा बेन, बी.के. निहा बेन, बी.के. गायत्री बेन (कोलाबा), बी.के. मोहिनी बेन (कोलाबा), डॉ. अशोक मेहताजी, बी.के. हरिलाल भाई, एवं जेम्स टूर कंपनी के मालिक ज्योतिन जी ने मिलकर माँ लक्ष्मी जी कि आरती के रूप मे आदरणीय दादी जानकी जी का अभिवादन किया।

आदरणीय दादी जानकी जी ने गामदेवी कि 54 वर्ष की यात्रा को याद किया । जिसमें दादीजी ने अव्यक्त बापदादा और मम्मा को एवं आदरणीय रमेश भाई जी, उषा दीदीजी, शांता माताजी, अनिल बेनजी को याद किया। आदरणीय दादीजी ने कहा ये फुलवारी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के द्वारा स्थापन हुआ जिसको आदरणीय शील दादीजी कि भी पालना मिली साथ ही साथ अनेक वरिष्ठ

आत्माओं कि पालना से गामदेवी ने अपने 54 वर्ष पूर्ण किये। दादीजी ने सभी ब्राह्मण आत्माओं में अपने आशीर्वचनो द्वारा बहुत उमंग उत्साह भरा।

दादी जानकीजी आदरणीय दादी गुलज़ार जी से मिलने आये हुये थे, दादीजी उनकी तबियत को देखकर बहुत खुश हुये, दादी जानकी जी ने दादी गुलजार जी के स्वास्थ्य के बारे में भी सबको बताया कि अब गुलज़ार दादीजी की तबीयत मे बहुत सुधार है।

बी.के. निहा बहेन ने मंचासीन आदरणीय दादी जानकी जी का, सभी अतिथियों का और सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मणों का अभिवादन किया और गामदेवी सबजोन कि यात्रा के बारे मे बताया।

अंत में गामदेवी सेन्टर के जन्मदिन के उपलक्ष में केक काटा गया।